



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 फाल्गुन 1945 (श10)
(सं0 पटना 300) पटना, मंगलवार, 19 मार्च 2024

आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

14 मार्च 2024

सं0 02 / स्था0-02-02 / 2024 / 780 / आ0प्र0—68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयनित 43 (तैंतालीस) अभ्यर्थियों की सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-110/लो0से0आ0/गो0, दिनांक-21.02.2024 द्वारा अनुशंसा प्राप्त है। उक्त 43 (तैंतालीस) अभ्यर्थियों में से 39 (उन्वालीस) अभ्यर्थी दिनांक-05.03.2024 को आयोजित काउन्सिलिंग में उपस्थित हुए।

2. विभागीय कार्यालय आदेश सं0-40-सह-पठित ज्ञापांक-639/आ0प्र0 दिनांक-01.03.2024 द्वारा गठित विभागीय समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के रिक्त पद पर वेतन लेवल-8 (वेतन-47,600-1,51,100/-) एवं समय-समय पर राज्य सरकार से स्वीकृत भत्ता पर निम्नांकित 39 (उन्वालीस) अभ्यर्थियों को पूर्णतः औपबंधिक एवं अस्थायी रूप से अधोलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करते हुए स्तम्भ-6 में अंकित जिला में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्र0	नवनियुक्त पदाधिकारी का नाम	अनुक्रमांक	आवंटित आरक्षण रोस्टर	गृह जिला	पदस्थापित जिला का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री राहुल भूषण	246633	अनारक्षित	पटना	भोजपुर
2	सुश्री अनुष्का श्रीवास्तव	516638	अनारक्षित	विदिशा (मध्य प्रदेश)	समस्तीपुर
3	सुश्री रिया	495926	अनारक्षित	गुरुग्राम (हरियाणा)	मुजफ्फरपुर
4	सुश्री अश्विनी	520742	अनारक्षित	धार (मध्य प्रदेश)	कैमूर
5	श्री उदय प्रताप सिंह	242248	अनारक्षित	पटना	सहरसा
6	श्री प्रणव कुमार	127712	अनारक्षित	सहरसा	पूर्णिया
7	सुश्री अंतरा कुमारी	420489	अनारक्षित	गया	औरंगाबाद
8	श्री प्रणव राज	127356	अनारक्षित	पूर्वी चम्पारण	दरभंगा
9	श्री कुमार नचिकेता	476804	अनारक्षित	रोहतास	बक्सर
10	मो0 शेरे अफगान खान	109211	अनारक्षित	गया	नवादा

क्र०	नवनियुक्त पदाधिकारी का नाम	अनुक्रमांक	आवंटित आरक्षण रोस्टर	गृह जिला	पदस्थापित जिला का नाम
1	2	3	4	5	6
11	श्री आकाश कुमार	276109	अनारक्षित	पटना	वैशाली
12	श्री मृत्युंजय पाण्डेय	257868	अनारक्षित	पलामू (झारखण्ड)	अररिया
13	सुश्री सुरभि सिंह	435853	अनारक्षित	औरंगाबाद	गया
14	श्री आदित्य कुमार सिंह	327804	अनारक्षित	चन्दौली (उत्तर प्रदेश)	किशनगंज
15	श्री आनंद सौरभ	182255	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	मुजफ्फरपुर	सीतामढ़ी
16	श्री रजनीश कुमार	348572	पिछड़ा वर्ग	मुंगेर	मधुबनी
17	श्री कुमार नमन	318144	पिछड़ा वर्ग	अररिया	पटना
18	सुश्री रिया राज सिंह	267692	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	बेगूसराय	खगड़िया
19	श्री ज्ञानेश गुंजन	169989	पिछड़ा वर्ग	लखीसराय	आपदा प्रबंधन विभाग (मुख्यालय)
20	सुश्री साक्षी कुमारी	522282	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	भागलपुर	बाँका
21	सुश्री श्वेता सुमन	520436	पिछड़ा वर्ग	सीतामढ़ी	शिवहर
22	सुश्री शबनम नाजनीन	214688	पिछड़ा वर्ग	गोपालगंज	सिवान
23	श्री अखिलेश कुमार	123008	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पश्चिमी चम्पारण	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)
24	श्री शिव दयाल	231463	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	बेगूसराय	मधेपुरा
25	श्री सौरभ सत्यम	504624	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पटना	शेखपुरा
26	श्री ऋतिक रौशन तेजस्वी	338958	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	गया	जहानाबाद
27	सुश्री निहारिका सिन्हा	507737	पिछड़े वर्गों की महिलायें	पटना	नालन्दा
28	सुश्री गीतांजलि	402924	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	नवादा	अरवल
29	श्री अनुभव राज	158352	अनुसूचित जन-जाति	गोपालगंज	सारण (छपरा)
30	श्री चन्द्रभूषण कुमार	153064	अनारक्षित (स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतिनी/पोता/पोती)	नालन्दा	सुपौल
31	सुश्री समीना खातून	516721	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पूर्वी चम्पारण	पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)
32	सुश्री रीतिका भारती	359593	अनुसूचित जाति	भागलपुर	कटिहार
33	श्री अभिषेक कुमार	251722	अनुसूचित जाति	शेखपुरा	जमुई
34	श्री शिव शंकर आजाद	305750	अनुसूचित जाति	पटना	मुंगेर
35	श्री राजू कुमार	273119	अनुसूचित जाति	शेखपुरा	बेगूसराय
36	सुश्री अंशु प्रिया	518823	अनुसूचित जाति	नालन्दा	लखीसराय
37	सुश्री कुमारी प्रेरणा	451050	अनुसूचित जाति	भोजपुर	रोहतास
38	श्री शाहनवाज खान	187042	दृष्टि दिव्यांग	सिवान	गोपालगंज
39	श्री सौरभ कुमार सिंह	360586	मूक-वधिर दिव्यांग	बाँका	भागलपुर

3. सभी अभ्यर्थी प्रभार ग्रहण करते समय सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने-देने संबंधी घोषणा पत्र के साथ ही असेैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

4. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में मात्र औपबंधिक रूप से की जाती है। उपर्युक्त अभ्यर्थियों की औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी एवं विधिसम्मत कानूनी कार्यवाई की जा सकेगी।

5. अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में दी गयी सूचनायें भविष्य में गलत पाये जाने पर अथवा पुलिस सत्यापन (Police Verification) प्रतिकूल प्राप्त होने पर अन्यथा किसी और कारण से नियुक्ति रद्द करने का एकल अधिकार

सरकार को रहेगा और आवश्यकतानुसार उनके विरुद्ध ली गयी राशि की वसूली अथवा अन्य विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

6. सभी नियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्ष्यमान अवधि नियमानुसार होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी। इस अवधि में ये "बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा संवर्धन नियमावली-2022" में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे।

7. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र0सु0 विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-2082 दिनांक-01.04.2003 के अनुपालन में प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है, जिसे प्रभार ग्रहण करने के समय मूलरूप में प्रस्तुत करना होगा।

8. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे दो दिनों के अन्दर स्तम्भ-6 में अंकित जिला में प्रभार ग्रहण कर लेंगे तथा इसकी सूचना मूल नियुक्ति पत्र की छायाप्रति के साथ अधोहस्ताक्षरी को भी देंगे। निर्धारित अवधि में प्रभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

9. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं 768 दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन पदाधिकारियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

10. प्रमाण-पत्रों की जाँच/सत्यापन की प्रत्याशा में योगदान की तिथि से तीन माह तक वेतन भुगतान औपबधिक रूप से किया जायेगा। प्रमाण-पत्रों की जाँच तीन माह के अन्दर नहीं होने की स्थिति में वेतन भुगतान स्थगित रहेगा।

11. पदभार ग्रहण के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12. पूर्व से सेवारत अभ्यर्थी द्वारा विधिवत रूप से विरमित/त्याग पत्र स्वीकृत होने के पश्चात ही उनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

13. प्रासंगिक पदों पर होने वाला व्यय मांग संख्या-39, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-80-001-0001-आपदा प्रबंधन विभाग का क्षेत्रीय स्थापना के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

14. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
खुर्शीद अकरम,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 300-571+200-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>